



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 127]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 1982/वैशाख 2, 1904

No. 127]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 1982/VAISAKHA 2, 1904

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1982

सं० 123/82—सीमाशुल्क

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd April, 1982

No. 123/82-CUSTOMS

सांकांनि० 329(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खण्ड 44 के उपखण्ड (4) जो खण्ड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बम रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 62-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं० 19 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० बी-12/1/82-टीआरयू]

G.S.R. 329(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 62-Customs, dated the 28th February, 1982, namely :—

In the Schedule to the said notification, serial No. 19 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F No. B.12/1/82-TRU]

सं० 124/82, सीमाशुल्क

सांकां नि० 330(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खण्ड 44 के उपखण्ड (4) जो खण्ड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16)

के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 70-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
“3क	51	शीर्ष सं० 51.01/03 के अन्तर्गत आने वाला विस्कोस फिलामेंट मून जो 600 डेनियर से कम का है	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का पांच प्रतिशत।
3ख	51	शीर्ष सं० 51.01/03 के अन्तर्गत आने वाला क्यूप्रमोनियम फिला-मेंट मून	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का दस प्रतिशत”।

[फा० सं० बी-12/1/82-टी०आर०यू०]

जितेंद्र बत्रा, अवसर सचिव

No. 124/82-CUSTOMS

G.S.R. 330(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill, under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 70-Customs, dated the 28th February, 1982, namely :—

In the Table annexed to the said notification, after S1. No. 3 and the entries relating thereto, the following S1. Nos. and entries shall be inserted, namely :—

1	2	3	4
“3A	51	Viscose filament yarn below 600 deniers falling under Heading No. 51.01/03.	Five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962)

1	2	3	4
3B	51	Cuprammonium filament yarn falling under Heading No. 51.01/03	Ten per cent of the Value of the goods, as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).”

[F. No. B.12/1/82-TRU]

J.K. BATRA, Under Secy.

सं० 133/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 331 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 121/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, दिनांक 13 जून, 1962 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “मद सं० 11(2)” शब्द, अक्षर, अंकों और कोष्ठकों स्थान के पर “मद सं० 11” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

[फा० सं० बी-37/11/82-टी०आर०यू०]

No. 133/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 331(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government in India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 121/62-Central Excises, dated the 13th June, 1962, namely :—

In the said notification for the word, letters, figures and brackets “Item No. 11(2)”, the word, letters and figures “Item No. 11” shall be substituted.

[F. No. B. 37/11/82-TRU]

सं० 134/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 332 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 203/67-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9 सितम्बर, 1967 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के नीचे की सारणी में, क्रम सं० 2 के सामने, स्तम्भ (2) में, “मिट्टी का तेल” शब्दों के स्थान पर, “मिट्टी का तेल और विमान-टैरवाइन ईंधन” शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० बी-37/2/82-टी०आर०यू०]

आर० के० चक्रवर्ती, उपसचिव

No. 134/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 332(E).—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the

Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance)
No. 203/67-Central Excises, dated the 9th September, 1967,
namely :—

In the said notification, in the Table below the proviso against S. No. 2, in column (2), for the word "Kerosene", the words "Kerosene and aviation turbine fuel" shall be substituted.

[F. No. B37/2/82-TRU]

R. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.

सं० 135/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 333(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 43/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) जहाँ कहीं "एक लाख रुपए" शब्द आते हैं उनके स्थान पर, "दोई लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे; और
- (ii) पैरा 2, 3 और 4 में, जहाँ कहीं "उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य" शब्द आते हैं उनके स्थान पर, "मभी उत्पाद-शुल्कय माल की निकासी का कुल मूल्य" शब्द रखे जाएंगे।

[फा०सं० बी०-38/2/82-टी०आर०यू०]

बी०लक्ष्मी कुमारन, अवसर सचिव

No. 135/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 333(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 43/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982, namely :—

In the said notification, —

- (i) for the words "rupees one lakh" wherever they occur, the words "rupees two and a half lakhs" shall be substituted; and
- (ii) in paragraphs 2, 3 and 4, for the words "the aggregate value of clearances of the said goods" wherever they occur, the words "the aggregate value of clearances of all excisable goods" shall be substituted.

[F. No. B-38/2/82-TRU]

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

सं० 136/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 334(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे माल को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 14 के अन्तर्गत आता है और जिसके विनिर्माण में ऐसे क्लोरीनित रबड़ का प्रयोग किया जाता है जो उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 15-क की उपमद (1) के अन्तर्गत आता

है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना ऐसे क्लोरीनित रबड़ पर पहले ही संदत्त उत्पाद-शुल्क के बराबर है:

परन्तु यह तब जब कि इस अधिसूचना के अधीन छूट के सम्बन्ध में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56-क में उप-वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

[फा० सं० बी 7/8/82-टी०आर०यू०]

No. 136/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 334(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts the goods, falling under Item No. 14 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in the manufacture of which chlorinated rubber, falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the said First Schedule, is used, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise already paid on such chlorinated rubber:

Provided that in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

[F No. B. 7/8/82-TRU]

सं० 137/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 335(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे माल को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 14 के अन्तर्गत आता है और जिसके विनिर्माण में ऐसे नाइट्रो सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है जो उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 15-क की उपमद (1) के अन्तर्गत आता है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना ऐसे नाइट्रो सेलुलोज पर पहले ही संदत्त उत्पाद-शुल्क के बराबर है:

परन्तु यह तब जब कि इस अधिसूचना के अधीन छूट के सम्बन्ध में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56-क में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

[फा० सं० बी 7/8/82-टी०आर०यू०]

No. 137/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 335(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts the goods, falling under Item No. 14 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in the manufacture of which nitro cellulose, falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the said First Schedule, is used, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise already paid on such nitro cellulose:

Provided that in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

[F.No.B7/8/82-TRU]

सं० 138/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 336(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे माल को जो केन्द्रीय

उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 14 के अन्तर्गत आता है और जिसके विनिर्माण में ऐसे एस्टर गम का प्रयोग किया जाता है जो उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 15 क की उपमद (1) के अन्तर्गत आता है उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना ऐसे एस्टर गम पर पहले ही संदत्त उत्पाद-शुल्क के बराबर है :

परन्तु यह तब जब कि इस अधिसूचना के अधीन छूट के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 56क में उपबोधित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

[फा०सं० बी-7/8/82-टी०आर०यू०]

No. 138/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 336(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts the goods, falling under Item No. 14 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in the manufacture of which ester-gum, falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the said First Schedule, is used, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise already paid on such ester-gum :

Provided that in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

[F No. B7/8/82-TRU]

सं० 139/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०मि० 337(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15 क की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले लिना-किसस को, यदि उसका लिनोलियम के विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने में प्रयोग किया जाता है तो, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा०सं० बी-7/8/82-टी०आर०यू०]

No. 139/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 337(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts linoxyn, falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), if used in the factory of production for the manufacture of linoleum, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[F No. B7/8/82-TRU]

सं० 140/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०मि० 338(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15 क की उपमद (1) के अन्तर्गत आने

वाले डैक्ड्रन को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है।

[फा०सं० बी-7/8/82-टी०आर०यू०]

No. 140/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 338(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts dextran, falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent, ad valorem.

[F No. B7/8/82-TRU]

सं० 141/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०मि० 339(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15 क की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले क्लोरीनित रबड़ को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है।

[फा०सं० बी-7/8/82-टी०आर०यू०]

No. 141/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 339(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts chlorinated rubber, falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent ad Valorem.

[F No. B7/8/82-TRU]

सं० 142/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०मि० 340(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15 क की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले एस्टर गम को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है :

परन्तु एस्टर गम को, यदि उसका उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 14 के अन्तर्गत आने वाले माल के विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने में प्रयोग किया जाता है तो, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

[फा०सं० बी-7/8/82-टी०आर०यू०]

No. 142/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 340(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts ester-gum, falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from

so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent ad valorem.

Provided that ester-gum, if used in the factory of production for the manufacture of goods falling under Item No. 14 of the said First Schedule shall be exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[F No. B7/8/82-TRU]

सं० 143/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० कां० नि० 341(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाली एम्फाल्टी छत-खदरों को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा० सं० बी-11/5/82-टी० आर० यू०]

No. 143/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts asphaltic roofing sheets, falling under sub-item (2) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[F. No. B-11/5/82 TRU]

सं० 144/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां० कां० नि० 342 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुद्रित बक्से और मुद्रित कार्टनों को (जिनके अन्तर्गत चपटे या मुड़े हुए बक्से और चपटे या मुड़े हुए कार्टन हैं) चाहे वे इससे उपा-बद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन की समुच्चा-यित या असुचित्य दशा में हों, और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (4) के अन्तर्गत आते हैं, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है।

सारणी

क्र०सं० बक्से/कार्टन का वर्णन	शर्त
(1)	(2)
1. मिल बोर्ड बक्से और मिल बोर्ड कार्टन।	यदि पूर्णतया मिल बोर्ड से बनाए गए हों।
2. स्ट्रा बोर्ड बक्से और स्ट्रा बोर्ड कार्टन।	यदि पूर्णतया स्ट्रा बोर्ड से बनाए गए हों।

(1)	(2)	(3)
3. नलीदार बोर्ड बक्से और नलीदार बोर्ड कार्टन।	यदि पूर्णतया क्राफ्ट कागज से या क्राफ्ट लाइन या नलीदार करने के माध्यम के रूप में ज्ञात कागज या कागज बोर्ड से बनाए गए हों चाहे मिल बोर्ड या स्ट्रा बोर्ड के साथ हों या नहीं।	

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) 'मिल बोर्ड' से कोई ऐसा अविरजित मजालीय बोर्ड अभिप्रेत है जिसकी मोटाई 0.50 मिमीमीटर से अधिक हो और जो स्क्रोनिंग और यांत्रिक लुगदों के साथ या उनके बिना मिश्रित रद्दी कागजों से बनाया गया हो किन्तु उसमें कोई रंजक द्रव्य न मिलाया गया हो :

(ख) 'स्ट्रा बोर्ड' से ऐसा बोर्ड अभिप्रेत है जिसे अंशतः पकाए गए अविरजित स्ट्रा या बगास या फासों या अन्य कृषि अवशेषों या इनमें से किसी के मिश्रण से पूर्णतः या प्रमुखतः बनाया गया हो :

परन्तु :—

- किसी ऐसे सामग्री की, जिसे प्रयोग में लाया गया हो, मात्रा संघटकों के कुल भार के एक तिहाई भार से अधिक नहीं होगी, और
- ऐसे बोर्ड को विशेष रूप से संशोधित नहीं किया जाएगा और उसकी किसी भी सतह पर कोई कागज चिपकाया नहीं जाएगा।

[फा० सं० बी 11/5/82-टी० आर० यू०]

आर० के० चक्रवर्ती, उप सचिव

No. 144/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 342(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts printed boxes and printed cartons (including flattened or folded boxes and flattened or folded cartons) whether in assembled or unassembled condition of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item (4) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, subject to the condition specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S.No.	Description of boxes /Cart- tons	Condition
1	2	3
1.	Mill board boxes and mill board cartons.	If made wholly out of mill board.
2.	Straw board boxes and straw board cartons.	If made wholly out of straw board.

1	2	3
3.	Corrugated board boxes and corrugated board cartons.	If made wholly out of kraft paper or out of paper and paper board of the type known as kraft liner or corrugating medium, whether or not in combination with mill board or straw board.

Explanation.—For the purposes of this notification:—

(a) 'mill board' means any unbleached homogenous board, having a thickness exceeding 0.50 millimetre and made out of mixed waste papers with or without screenings and mechanical pulp but without any colouring matter being added thereto:

(b) 'straw board' means a board made wholly or predominantly from partially cooked unbleached straw or bagasse or grasses or other agricultural residues or a mixture of these:

Provided that:—

(i) the quantity of any other material used shall not exceed one third in weight of the total weight of the ingredients, and.

(ii) such board shall not be specially compressed and shall not have any paper pasted on either surface.

[F. No. B11/5/82-TRU]

R. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.

सं० 145/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 343 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 94/67-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 मई, 1967 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

क्त अधिसूचना में, परन्तुक के खण्ड (ii) में, "15.00" अंकों के स्थान पर "30.00" अंक रखे जाएंगे।

[फा० सं० बी० 26/1/82-टी० आर० यू०]

No. 145/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 343(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 94/67 Central Excises, dated the 26th May, 1967, namely:—

In the said notification, in clause (ii) of the proviso, for the figures "15.00", the figures "30.00" shall be substituted.

[F. No. B26/1/82-TRU]

सं० 146/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 344 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 104/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, मद 6 और 7 के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"6. पेन, जिनके अन्तर्गत बाल-पाइन्ट पेन हैं, और उनके पुर्जे तथा बाल-पाइन्ट पेन के लिए रिफिल।

7. चश्मे, चश्मे के लेन्स और चश्मे के फ्रेम।"

[फा० सं० बी० 41/1/82-टी० आर० यू०]

No. 146/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 344(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 104/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, for items 6 and 7, the following items shall be substituted, namely:—

"6. Pens, including ball point pens, and parts thereof and refills for ball point pens.

7. Spectacles, spectacle lenses and spectacle frames."

[F. No. B41/1/82-TRU]

सं० 147/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 345 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 80/80 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 का निम्न लिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 72 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"73.	59(3)	ध्वनि रिकार्डिंग के लिए कासेट टेप"

[फा० सं० बी० 35/1/82-टी० आर० यू०]

बी० लक्ष्मी कुमारन, अवसर सचिव

No. 147/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 345(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue)

No. 80/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980, namely :—

In the Table annexed to the said notification, after No. 72 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

1	2	3
"73.	59(3)	Cassette tapes for sound recording."

[F. No. B35/1/82-TRU]

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

सं० 148/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 346 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 31/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 को अधिष्क्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 1घ के अन्तर्गत आने वाले वातित जल को, जिसकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल की या उसके पश्चात् घरेलू उपभोग के लिए की जाती है,—

(क) साढ़े सात लाख रुपए से अतिरिक्त के कुल मूल्य तक वातित जल की प्रथम निकासी की दशा में,—

(i) ऐसी प्रथम निकासी के भागरूप सामान्य व्यापार चिन्ह वाले वातित जल पर, [केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित] उक्त मद के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना ऐसे शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक है;

(ii) ऐसी प्रथम निकासी के भागरूप अन्य वातित जल पर, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से; और

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट मूल्य की उक्त प्रथम निकासी की ठीक अगली निकासी की दशा में (जो साढ़े सात लाख रुपए से अतिरिक्त के कुल मूल्य के वातित जल की निकासी है),—

(i) ऐसी निकासी के भागरूप सामान्य व्यापार चिन्ह वाले वातित जल पर, [केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित] उक्त मद के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना ऐसे शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक है ;

(ii) ऐसी निकासी के भागरूप अन्य वातित जल पर [केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित] उक्त मद के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना ऐसे शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक है, छूट देनी है:

परन्तु एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने में वातित जल की निकासी का कुल मूल्य :—

(i) इस पैरा के खण्ड (क) और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 31/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 के पैरा 1 के खण्ड (क) या

(ii) इस पैरा के खण्ड (क) और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 31/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 के पैरा 1 के खण्ड (ख), के अनुसार शुल्क की रियायती दर पर, दोनों ही दशाओं में, किसी वित्तीय वर्ष में साढ़े सात लाख रुपए से अधिक नहीं होगा ।

2. इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी,—

(i) यदि उसके द्वारा या उसको ओर से एक या अधिक कारखानों में घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क या माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो गया हो;

(ii) यदि उसके द्वारा या उसको ओर से एक या अधिक कारखानों में घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान वातित जल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो गया हो;

3. जहां किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त वातित जल की निकासी नहीं की है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार वातित जल की निकासी की है वहां इस अधिसूचना में अतिरिक्त छूट ऐसे विनिर्माता को लागू होगी,—

(क) यदि वह सहायक उत्पाद-शुल्क कलक्टर के पास इस आशय की घोषणा फाइल कर देता है कि —

(i) उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक होने की सम्भावना नहीं है ; और

- (ii) उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान वातित जल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक होने की सम्भावना नहीं है; और
- (ख) (i) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है; और
- (ii) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान वातित जल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक नहीं है।

4. इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी,—

- (i) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो गया हो,
- (ii) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान वातित जल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो गया हो।

5. जहां वातित जल की निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी कारखाने से नहीं की गई है या उसकी निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार की गई है वहां इस अधिसूचना में अन्तर्लिखित छूट लागू नहीं होगी,—

- (i) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो जाता है,
- (ii) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान वातित जल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो जाता है।

स्पष्टीकरण 1 :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “सामान्य व्यापार चिह्न वाले वातित जल” से ऐसा वातित जल अभिप्रेत है—

- (i) जिसका विषय ऐसे व्यापार चिह्न के अधीन जो व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1985

(1958 का 43) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, अथवा किसी ब्राण्ड नाम के अधीन किया जाता है; और

- (ii) जिसका विनिर्माण एक से अधिक कारखाने में (चाहे वे एक या अधिक विनिर्माताओं के हों) एक ही व्यापार चिह्न या ब्राण्ड नाम से किया जाता है; और

- (iii) सभी ऐसे कारखानों से उसकी एक साथ निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो गया हो;

(ख) ‘मूल्य’ से वह मूल्य अभिप्रेत है जिसका अवधारण केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के अधीन निकासी के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, वातित जल की निकासी जिसको केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना द्वारा उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, हिसाब में नहीं ली जाएगी, किन्तु कोई ऐसी निकासी जिसकी बाबत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 80/80 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 और 31/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 23 फरवरी, 1982 के अधीन छूट प्राप्त कर ली गई है, हिसाब में ली जाएगी।

[फा० सं० 2/1/82 टी आर यू]

No. 148/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 346(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982, the Central Government hereby exempts aerated waters, falling under Item No. 1D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year, by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories.—

(a) in the case of first clearances of aerated waters upto an aggregate value not exceeding rupees seven and a half lakhs,—

(i) on common trade mark aerated waters forming part of such first clearances, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Item [read with any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in force for the time being] as is in excess of fifty per cent of such duty;

(ii) on other aerated waters forming part of such first clearances, from the whole of the duty of excise leviable thereon; and

(b) in the case of the clearances (being clearances of aerated waters of an aggregate value not exceeding rupees seven and a half lakhs) immediately following the said first clearances of the value specified in clause (a),—

(i) on common trade mark aerated waters forming part of such clearances, from so much of the duty

of excise leviable thereon under the said Item [read with any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in force for the time being] as is in excess of fifty per cent of such duty;

- (ii) on other aerated waters forming part of such clearances, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Item [read with any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in force for the time being] as is in excess of seventy-five per cent of such duty;

Provided that the aggregate value of clearances of aerated waters from any factory by or on behalf of one or more manufacturers at the concessional rates of duty in terms of—

- (i) clause (a) of this paragraph and clause (a) of paragraph 1 of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31/82-Central Excises dated the 28th February, 1982, or
- (ii) clause (b) of this paragraph and clause (b) of paragraph 1 of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31/82-Central Excises dated the 28th February, 1982, or

shall not, in either case, exceed rupees seven and a half lakhs in any financial year.

2. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer,—

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the preceding financial year, had exceeded rupees twenty lakhs;
- (ii) if the aggregate value of clearances of aerated waters by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs.

3. Where a manufacturer has not cleared any aerated waters in the preceding financial year, or has cleared any aerated waters for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer.—

- (a) if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise,—

- (i) that the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees twenty lakhs, and
- (ii) that the aggregate value of clearances of aerated waters by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees fifteen lakhs; and
- (b) (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees twenty lakhs, and
- (ii) if the aggregate value of clearances of aerated waters by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees fifteen lakhs.

4. Nothing contained in this notification shall apply,—

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers for home consumption, during the preceding financial year, had exceeded rupees twenty lakhs,
- (ii) if the aggregate value of clearances of aerated waters from any factory by or on behalf of one or more manufacturers for home consumption, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs.

5. Where any aerated waters have not been cleared from any factory in the preceding financial year, or have been

cleared for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall not be applicable,—

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers for home consumption, during the financial year, exceeds rupees twenty lakhs,
- (ii) if the aggregate value of clearances of aerated waters from such factory by or on behalf of one or more manufacturers for home consumption, during the financial year, exceeds rupees fifteen lakhs.

Explanation I.—For the purposes of this notification,—

- (a) “common trade mark aerated waters” means aerated waters—
- (i) which are sold under a trade mark, registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958) or not, or under a brand name; and
- (ii) which are manufactured with the same trade mark or brand name in more than one factory (whether belonging to one or more manufacturers); and
- (ii) the aggregate value of clearances whereof from all such factories taken together had exceeded rupees fifteen lakhs during the preceding financial year;
- (b) “value” means the value as determined in accordance with the provisions of section 4 of Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

Explanation II.—For the purposes of computing the aggregate value of clearances under this notification the clearances of aerated waters, which are exempted from whole of the duty of excise leviable thereon by any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force shall not be taken into account, but the clearances, if any, in respect of which exemption has been availed of under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) Nos. 80/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980 and 31/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982 shall be taken into account.

[F. No. B.2/1/82 TRU]

सं० 149/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 347(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 68/71 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 29 मई, 1971 को अधिक्रान्त करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाली सभी प्रकार की प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को, जिनके अन्तर्गत—

- (i) पुनर्योजित सेलुलोज की फिल्म या शीट और पॉलिएस्टर फिल्म, चाहे वे लेकर लेपित या पटलीकृत या धातु लेपित हों या न हों,
- (ii) कड़े प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीटें और फिल्में चाहे वे लेकर लेपित या पटलीकृत या धातु लेपित हों या न हों, और
- (iii) कम्य पोलिवाइनिन क्लोराइड शीटिंग, शीटें, फिल्में चाहे वे लेकर लेपित या पटलीकृत या

धतु लेपित हों या न हों और ले फलेट ट्यूबें जिनमें कोई टेक्स्टाइल सामग्री न हो,

नहीं, हैं, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु—

(क) ऐसी वस्तुएं उक्त मद की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले किसी भी रूप में, कृत्रिम रेजिन या प्लास्टिक सामग्री या सेलुलोज एस्टर और ईथर से उत्पादित की जाती हैं जिन पर, यथास्थिति, उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त शुल्क का पहले ही संदाय कर दिया गया है; या

(ख) ऐसी वस्तुएं प्लास्टिक के स्क्रैप से उत्पादित की जाती हैं।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए —

(i) 'प्लास्टिक' पद से अभिप्रेत है उक्त मद सं० 15क की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन या प्लास्टिक सामग्री या सेलुलोज एस्टर और ईथर ;

(ii) प्लास्टिक से बनी वस्तु के सम्बन्ध में 'नम्य' पद से अभिप्रेत है वह वस्तु जिसमें, जब उसका प्लास्टिक की कठोरता के लिए (ए एस टी एम अभिधान डी-747-63) प्लास्टिक के आनमन गुण के लिए (ए एस टी एम अभिधान डी 790-63) प्लास्टिक के आनमन गुण के लिए (ए एस टी एम अभिधान डी-638-64टी) या पतली प्लास्टिक शीटिंग के तनन गुण के लिए (ए एस टी एम अभिधान डी-882-64टी), परीक्षण की पद्धति के अनुसार परीक्षण किया जाए तो उसमें 23 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 प्रतिशत अपेक्षित आद्रता पर 700 किबोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से अनधिक का मापांक या प्रत्यास्थता, चाहे वह आनति में हो या तनन में, होती है ;

(iii) प्लास्टिक से बनी वस्तु के संबंध में 'कड़े' पद से अभिप्रेत है खंड (ii) में यथा परिभाषित 'नम्य' वस्तुओं से भिन्न सभी वस्तुएं।

[फा० सं० बी०/7/7 82टी० आर० यू०]

NO. 149/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 347(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 68/71-Central Excises, dated 29th May, 1971, the Central Government hereby exempts articles made of plastics, all sorts, falling under sub-item (2) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), except—

(i) film or sheet of regenerated cellulose and polyester films, whether lacquered or laminated or metallised or not;

(ii) rigid plastic boards, sheets, and films, whether lacquered or laminated or metallised or not; and

(iii) flexible polyvinyl chloride sheeting, sheets, films, whether lacquered or laminated or metallised or not, and lay flat tubings not containing any textile material,

from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that

(a) such articles are produced out of artificial resins or plastic materials or cellulose esters and others in any from falling under sub-item (1) of the said Item on which the duty of excise or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has already been paid; or

(b) such articles are produced out of scrap of plastics.

Explanation.—For the purposes of this notification—

(i) the expression 'plastics' means the various artificial or synthetic resins or plastic materials or cellulose esters and others, included in sub-item (1) of the said Item No. 15A ;

(ii) the expression 'flexible' in relation to an article made of plastics, means the article which has a modulus of elasticity either in flexure or in tension of not over 700 kilograms per square centimetre at 23 degrees Centigrade and 50 per cent. relative humidity when tested in accordance with the method of test for stiffness of plastics (ASTM Designation D.747-63), for flexural properties of plastics (ASTM Designation D-790-63), for Tensile properties of plastics (ASTM Designation D-638-64T), or for Tensile properties of Thin plastic sheeting (ASTM Designation D-882-64-T);

(iii) the expression 'rigid', in relation to an article made of plastic, means all articles other than 'flexible' articles as defined in clause (ii).

[F. No. B7/7/82-TRU]

सं० 150/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 348(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क की उपमद (3) के अन्तर्गत आने वाले माल को, किन्तु जो प्लास्टिक से बनी वस्तु नहीं है, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु ऐसी वस्तुएं उक्त मद की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले ऐसे माल से उत्पादित की जाती हैं जिस पर, यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त शुल्क का पहले ही संदाय कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "प्लास्टिक" से अभिप्रेत है पूर्वोक्त पहली अनुसूची की मद सं० 15क की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन या प्लास्टिक सामग्री या सेलुलोज एस्टर और ईथर।

[फा० सं० बी० 7/7/82-टी०आर० यू०]

No. 150/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 348(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods falling under sub-items (2) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), but not being articles made of plastics, from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that such articles are produced out of goods falling under sub-item (1) of the said Item on which the duty of excise or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has already been paid.

Explanation.—For the purposes of this notification, “plastics” means the various artificial or synthetic resins or plastic materials or cellulose esters and ethers included in sub-item (1) of Item No. 15A of the aforesaid First Schedule.

[F. No. B7/7/82-TRU]

सं० 151/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 349(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखंडित करती है, अर्थात् :—

1. सं० 50/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982
2. सं० 51/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982
3. सं० 53/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982
4. सं० 127/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 अप्रैल, 1982
5. सं० 128/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 अप्रैल, 1982

[फा०सं० बी० 7/7/82-टी०आर०यू०]

आर०के० चक्रवर्ती, उप सचिव

NO. 151/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 349(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue, namely:—

1. No. 50/82-Central Excise, dated the 28th February, 1982.
2. 51/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.
3. No. 53/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.
4. No. 127/82-Central Excises, dated the 2nd April, 1982.
5. No. 128/82-Central Excises, dated the 2nd April, 1982.

[F. No. B7/7/82-TRU]

R K. CHAKRABARTI, Dy. Secy

सं० 152/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 350(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 92/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 16 मार्च, 1976 को विखंडित करती है।

[फा०सं० बी० 19/1/82-टी०आर०यू०]

बी० लक्ष्मीकुमारन, अवर सचिव

NO. 152/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 350(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 92/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.

[F. No. B19/1/82-TRU]

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

सं० 153/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 351(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इससे उपावद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना का उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	70/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971	उक्त प्रत्येक अधिसूचना में, “सं० 68/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971” शब्द, अंकों और शब्दों के स्थान पर, “सं० 149/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982” शब्द, अंक और शब्द रखे जाएंगे।
2.	71/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971	उक्त अधिसूचना में,—
	75/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971	(क) “फिल्मों” शब्द के स्थान पर, “फिल्मों” चाहे वे लेकर लेपित या धातु

1	2	3
		लेपित या पटलीकृत हों या नहीं," शब्द रखे जाएंगे;
		(ख) "सं० 68/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई 1971" अक्षर, अंकों और शब्दों के स्थान पर "सं० 149/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे।
3. 39/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973	उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, "(ए एस टी एम अभिधान डी-474-63)" कोष्ठकों, अक्षरों, शब्द और अंकों के स्थान पर, "(ए एस टी एम अभिधान डी-747-63)" कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक रखे जाएंगे।	

[फा०सं० बी० 7/7/82-टी०आर०यू०]

आर०के० चक्रवर्ती, उप सचिव

No. 153/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 351(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE		
S.No.	Notification no. and date	Amendment
1	2	3
1.	70/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	In each of the said notifications, for the letters, figures and words "No. 68/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971" the letters, figures and words "No. 149/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982" shall be substituted.
	71/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	
	75/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	
2.	72/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	In the said notification— (a) for the word "films" the words "films, whether lacquered or metallised or laminated or not," shall be substituted; (b) for the letters, figures and words "No. 68/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971", the letters, figures and words "No. 149/82 Central Excises, dated the 22nd April, 1982" shall be substituted.
3.	39/73-Central Excises' dated the 1st March, 1973.	In the Explanation to the said notification, for the brackets, letters, word and figures "(ASTM Designation D-474-63", the brackets, letters, word and figures "(ASTM Designation D-747-63)" shall be substituted.

[F. No. B7/7/82-TRU]

R. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.